

छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन

सितम्बर माह रिपोर्ट 2020

अध्यक्ष-अमिता मूंधड़ा

मंत्राणी-भावना राठी

जयश्री कृष्ण, जयमहेश

कोरोना महामारी और lockdown के तहत छ. ग.प्रदेश में ये माह श्रद्धांजलि माह के रूप में रहा।

कोरोना ने अब हमारे अपने सामाजिक घरों में दस्तक दी और हमारे प्रियजनों ने हमसे हमेशा के लिए विदाई ले ली। बहुत से सामाजिक बंधु हमसे बिछड़ गए।

सभी की मानसिक और शारिरिक परेशानी को ध्यान में रखते हुए व सभी की मनःस्थिति को समझते हुए प्रदेश ने सभी समितियों से आग्रह किया कि इस माह को श्रद्धांजलि के रूप में मनाए और कोई भी प्रोजेक्ट

न करे व सभी एक दूसरे का साथ निभाये।

प्रदेश के जिलों में व कुछ समितियों में जो काम हुए उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हैं। ज्यादा काम नहीं हुआ उसके लिए क्षमाप्रार्थी हैं।

जिला रिपोर्ट

धमतरी-सितम्बर में प्रादेशिक स्तर पर गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में 2 प्रतियोगिता-1) प्रकृति का ये संदेश मिट्टी के हो श्री गणेश-(10 से 15 वर्ष)

20 एंट्री आई निर्णायक पलक जाजू भोपाल रही।

- 1) चारु चांडक धमतरी
- 2) आर्ची टॉवरी बस्तर
- 3) निशिता टॉवरी धमतरी

2) छोटी सो विनायक म्हारे घर आयो (महिलाओं के लिए)-

माता पार्वती की मोहक छवि धर अपने पुत्र श्री गणेश की जन्म कथा मारवाड़ी भाषा में सुनानी थी। 31 एंट्री निर्णायक नागपुर से श्रीमती किरण मूंधड़ा, कल्पना मोहता रही।

- 1) श्रीमती सूचिता राठी दुर्ग
- 2) श्रीमती दीपाली चांडक धमतरी
- 3) श्रीमती मीनल गिलड़ा दुर्ग

इसके अतिरिक्त दोनों ही प्रतियोगिता में 5 अलग प्राइज दिए गए।

इसके साथ जिले में गणेश जी की रंगोली, रामदेव बाबा युगल जोड़ी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आदि सम्पन्न।

27 सितम्बर प्रदेश युवा संगठन द्वारा आयोजित वैदिक मैथ्स जूम वेबिनार द्वारा सरल ट्रिक्स से गणित के सूत्र बच्चों ने सीखे।

दुर्ग जिला :- 5 सितम्बर शिक्षक दिवस में शिक्षको का सम्मान ,21 को अखंड रामायण का पाठ, 26 को 1008 हनुमान चालीसा का पाठ सम्पन्न।

बिलासपुर जिला :- ZOOM पर राधाष्टमी महोत्सव 56 भोग सरोज राठी के घर पर, पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन, तर्पण, अपने अपने घर पर रहकर ,22 सितम्बर को भाटापारा महिला मंडल द्वारा फूल बंगला का आयोजन शिव मंदिर में पदाधिकारियों द्वारा विडियो कॉल के माध्यम से दर्शन, पितृपक्ष में गायों को गुड़, आदि कार्यक्रम सम्पन्न. भाटापारा द्वारा नई सोच व सुंदर संचालन के साथ **Coffee with Teacher** का सफल सराहनीय आयोजन । प्रदेश के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बस्तर जिला :- सितम्बर अधिक मास में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी व नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा का जाप 12 घंटे किया ।

समिति रिपोर्ट :-

1. ग्राम विकास समिति :- गौ सवर्धन प्रोजेक्ट के तहत गोबर से निर्मित चीजों की मैनुअल मशीन का ऑर्डर किया गया और अब उसे लगवाने की तैयारी शुरू है ।

2. महिला अधिकारी समिति - आओ सीखे कार्यशाला whatsapp पर छोटे छोटे विडिओ के माध्यम से हर 10 दिनों में ली जा रही हैं। जिसमें account और banking के विडिओ पूजा टावरी, प्राची गांधी तथा रेणु टावरी द्वारा दिये गये । गरबा डांडिया के धारा माहेश्वरी और terrace garden organic खाद श्रीमती प्रभा भैय्या द्वारा वीडिओ दिया गया। जिससे 465 महिलाओं ने लाभ उठाया।

3. पारिवारिक समरसता समिति - 5 सितम्बर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में योग और मेनोपॉज़ की कार्यशाला ZOOM पर योगाचार्य विकास कँसारि हरिद्वार तथा होम्योपैथी डॉक्टर. वर्षा झंवर द्वारा मेनोपॉज़ पर प्रकाश डाला गया। 70 बहनों ने लाभ उठाया। हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति राठी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व राष्ट्रीय समिति प्रभारी श्रीमती शिखा जी भदादा व आंचलिक प्रभारी सीमा जी मुँधड़ा के साथ प्रदेश के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे ।

4. कम्प्यूटर समिति :- अखिल भारतीय स्तर पर समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों से अवगत कराया गया। टेलीग्राम ऐप से जुड़ने और E-Learning की जानकारी दी गई।

5. पर्व व सांस्कृतिक समिति :- राष्ट्रीय समिति की मीटिंग हेतु मेरे देश की धरती- किसान विषय पर परफॉर्मेंस वीडिओ बनाकर प्रदेश द्वारा भेजा गया अधिक मास के उपलक्ष्य में दान की महिमा का पोस्टर व वीडिओ द्वारा जानकारी प्रदेश में दी गई।

6. स्वाध्याय समिति :- जैसा इसका नाम सबसे ज्यादा काम सितम्बर में प्रदेश में परम पावन पुनीत अधिक मास के लिये 1 whatsapp group बनाकर बहनों को जोड़ा गया और रोज़ गीता अध्याय के श्लोक का स्वाध्याय कराया जा रहा है। बच्चों के लिए प्रेरणादायक बातें व कहानियाँ भेजी जा रही हैं। प्रदेश में Heartfulness मेडिटेशन के द्वारा स्वयं को जानने व अंतर्मन की भावनाओं से जोड़ने के लिये 24, 25, 26 सितम्बर workshop का आयोजन 100 बहनों ने लाभ लिया। इस अधिक मास में तुलसी दान, अन्न दान व दीपदान किया जाएगा। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में- रायपुर-महेश महिला संगठन द्वारा 17 से 27 सितम्बर नौ पारायण पाठ अध्यात्म समिति द्वारा रामायण 108 श्लोक का पाठ। दुर्ग जिला- बेमेतरा गुंडरदेही में अधिक संख्या में पाठ, 21 सितम्बर अखंड रामायण 17 परिवार द्वारा ZOOM पर, 26 सितम्बर 1008 हनुमान चालीसा का पाठ सम्पन्न। राजनांदगाँव - 9 दिन का अनुष्ठान 24000 गायत्री मंत्र का जाप रोज़ 27 माला का जाप किया गया। इसके अलावा बिलासपुर जिले के जशपुर महिला मंडल ने एकादशी को अखंड रामायण का पाठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, माला सुंदरकांड का पाठ निरंतर किया जा रहा है।



